

**22<sup>nd</sup> July, 2025**

The National Stock Exchange of India Limited  
Exchange Plaza, 5th Floor  
Plot No. C/1, G Block  
Bandra Kurla Complex  
Bandra (E)  
**Mumbai- 400 051**

**NSE Symbol : HAVELLS**

BSE Limited  
Phiroze Jeejeebhoy Towers  
Dalal Street  
**Mumbai- 400 001**

**Scrip Code : 517354**

**Sub: Newspaper Clippings – Economic Times & Jansatta**

Dear Sir,

In terms of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with corresponding circulars and notifications issued thereunder, we are enclosing herewith the Newspaper clippings from the Economic Times (English) and Jansatta (Hindi) editions of 22<sup>nd</sup> July, 2025 wherein Un-audited Financial Results of the Company for the first quarter ended 30<sup>th</sup> June, 2025 have been published.

The above is for your information and records.

Thanking you.

Yours faithfully,  
for **Havells India Limited**

**(Sanjay Kumar Gupta)**  
**Company Secretary**

**Encl: As above**

**HAVELLS INDIA LTD.**

Corporate Office: QRG Towers, 2D, Sector 126, Expressway, Noida - 201304, U.P (INDIA). Tel: +91-120-3331000, Fax: +91-120-3332000, E-mail: marketing@havells.com, www.havells.com  
Registered Office: 904, 9th Floor, Surya Kiran Building, K.G. Marg, Connaught Place, New Delhi - 110001. (INDIA)  
For CARE 360, Call us : for Havells : 08045771313, for Lloyd : 08045775666. CIN: L31900DL1983PLC016304

# It's for Real! AI is Making Phones Smarter & Costlier

Prices of flagship handsets may rise 10-15% on higher costs of chipsets and memory modules

Ashtosh Kumar

New Delhi: The integration of artificial intelligence (AI) could become a double-edged sword for smartphone brands, with industry executives and experts predicting a 10-15% increase in flagship handset prices in the coming quarters in India due to rising chipset and memory module costs, vital for unlocking full AI capabilities.

Of late, AI and generative AI (GenAI) capabilities have also trickled into mid-range smartphones, spurred by handset brands and chipset makers' initiatives. However, analysts cautioned that if the rising costs are passed on to mid-range model buyers, it could further dampen shipments in India this year.

"With the rising chipset costs and also corresponding memory chipset costs to bring the full AI capabilities in a smartphone, the overall cost to manufacture a flagship smartphone will rise," Neil Shah, vice president at Counterpoint Research, told ET. "After a point, brands will not have enough room to adjust the BoM (bill-of-materials) costs to keep the pricing the same year after year and will have to raise prices for flagships by at least 10-15% as they move to chipsets with advanced nodes," Shah said.

Thomas CH, senior director (product marketing) at Taiwanese chipmaker MediaTek, said the cost to offer premium performance in a smartphone is increasing, but added that consumers are willing to pay more to buy a premium smartphone.

On their part, chipset makers and other vendors are attempting to control costs, he said. "MediaTek is part of a very complex supply chain, which also includes memory, display, and camera, and others. Every industry is doing its best to control the costs," he said.

The International Data Corporation

**Reality Check**  
Rising chipset, memory costs drive production expense for brands

Advanced chipsets with AI need costlier fabrication nodes

IDC warns that passing on higher costs to consumers may further crimp sales

MediaTek says supply chain complexity adds to pricing strain

AI capabilities are available in devices priced over ₹30,000

## Smartphone Shipments Rebound in April-June

Subhrojit Mallick

New Delhi: Smartphone shipments rose in the three months ended June, rebounding from two straight quarters of decline, as inventory challenges eased for brands, spurring fresh launches and vendor activity, according to market trackers.

Shipments grew 7% on-year and 21% sequentially to 39 million units in Q2 2025, according to Canals. IDC's preliminary data reported an estimated 34-36 million units getting shipped, a 3-4% rise on-year.

Counterpoint Research expects the industry to record flat shipment growth in the first half of 2025, after recovering in the second quarter with 7% on-year increase, recovering from a 7% decline in Q1 to 32 million units.

Shipments in the March quarter got impacted by persistent demand weakness and elevated channel inventory from late 2024.

"The growth in Q2 was primarily launch-led momentum, rather than organic demand in the market, which remains persistently low," said Sanyam Chaurasia, analyst at Canals.

According to IDC, brands significantly added inventory in the June quarter, particularly through offline retail channels.

Vivo and Oppo saw sustained growth in the first half of 2025, growing 31% and 24% on-year respectively, according to Canals. Offline channels embraced new launches from the two Chinese brands due to higher dealer margins. Others, like Samsung kept a more measured approach ahead of the festive season, with shipments growing a marginal 2% on-year. Xiaomi's shipments were 25% lower on-year in Q2 but improved sequentially after a muted first quarter, Canals said.

Apple continued growth momentum, ranking sixth in Q2, with iPhone 16 accounting for over 55% of shipments.

(IDC) noted that currency fluctuations are also weighing on chipset prices.

Upasana Joshi, research manager, IDC, said passing on higher costs to consumers could further crimp smartphone

sales in India, a market experiencing subdued demand. She added that since AI capabilities are already available in devices priced at over ₹30,000, a price hike could have an industry-wide effect.

## Two AI Jets in Trouble; IndiGo Aircraft Makes Emergency Landing

Mumbai: Three different aircraft incidents occurred on Monday, including a Kochi-bound Air India plane veering off the runway while landing in heavy rain at the Mumbai airport, and an IndiGo aircraft from Goa making an emergency landing at the Indore airport due to a technical snag. In another incident, a Kolkata-bound Air India plane aborted takeoff due to a technical snag at Delhi airport. An AI spokesperson said the flight AI2744, operating from Kochi to Mumbai, experienced heavy rain during landing, resulting in a runway excursion after touchdown. All passengers and crew are safe. - PTI

## 'Self-developed Jio 5G Tech Stack Holds Global Appeal'

Himanshi Lohchab

Mumbai: A senior executive of Reliance Industries said the self-developed end-to-end 5G stack of Reliance Jio, the conglomerate's telecom arm, is gaining recognition globally and is a potential monetisable opportunity. "It (Jio) is one of the leading deep tech companies in India with enormous amounts of innovation and technology development that we have done over the years," Anshuman Thakur, senior vice president, Reliance Industries, said at the company's earnings call on Friday.

Reliance Jio is an unlisted subsidiary of Jio Platforms, which holds Reliance Industries' telecom and digital businesses.

"Today this technology, this tech stack, the entire value chain, the whole software, hardware stack is only available with us and has been deployed at scale," Thakur said. "All the global operators are looking at us to see how we have done this so successfully. And then a whole bunch of

initiatives on AI."

The latest addition to the telecom tech stack is the multi-point UBR technology for home connections, which global telcos have tried to replicate but failed, he said.

UBR enables multiple home connections through a single 5G cell site targeting 50%-60% homes within a micro-cluster using a single transmission tower, bringing down deployment costs.

"We are the first to deploy UBR for UBR-based connectivity at scale. This is a technology that operators worldwide have tried to work on and have not had much success," he said.

UBR is the innovation child of Mimosa Networks, the US-based communications equipment maker which Jio Platforms acquired for \$60 million through its wholly owned subsidiary Radisys Corporation in August 2023.

Majority of Jio's UBR equipment are manufactured by US-based Samnina Corporation, which has a joint venture with Reliance Industries in India.

AFTER RAISING ₹2,005 CR THROUGH QIP...

## Ireda Looks to Raise ₹3k cr More

Equity funding through new round to enhance borrowing and lending capabilities

Kalpna Pathak & Pranav Varshney

Mumbai: Indian Renewable Energy Development Agency (Ireda) plans to raise additional ₹3,000 crore in equity funding via a qualified institutional placement (QIP) to push its borrowing and lending capabilities, chairman Pradip Kumar Das told ET on Monday.

The state-owned non-banking financial company focused on promoting renewable energy recently raised ₹2,005 crore through a QIP. The remaining dilution for a potential ₹5,000-crore raise will be considered at the right time, factoring in both market conditions and internal requirements, Das said.

"We have done one tranche. Another tranche, which we are planning, may enable around ₹3,000 crore. That will give us further borrowing power," he said. "We will try to optimise our equity and our borrowing, so that we can optimise lending and overall minimise the borrowing cost."

Das' optimism on lending stems from



around ₹4,000-5,000 crore via bonds in the near future.

In the quarter ended June 30, Ireda's loan sanctions rose 29% from a year ago to ₹11,740 crore, while disbursements were up 31% to ₹6,981 crore.

Ireda also plans to fund projects by domestic renewable energy developers overseas through its wholly owned subsidiary Ireda Global Green Energy Finance-IFSC Ltd, which received a provisional registration from the International Financial Services Centre Authority (IFSCA) to operate as a finance company in GIFT City in September last year.

the fact that India has achieved 50% of its energy production from non-fossil fuel sources. Out of 484.8 GW of total installed capacity, 242.8 GW is now based on renewable or low-carbon sources.

Also, recently, the Central Board of Direct Taxes notified Ireda bonds as 'long-term specified assets' under Section 54EC of the Income-tax Act, enabling investors to claim capital gains tax exemption and facilitate Ireda to further raise

**GENSL ENGINEERING**

Speaking about the Gensol Engineering case, where Ireda has an exposure of ₹729 crore, Das said it was the result of the promoters' misgovernance and was unrelated to the broader health of the e-mobility sector.

Gensol promoters Anmol Singh Jaggi and Puneet Singh Jaggi are accused of alleged fund diversion and corporate governance lapses.

## SC Junks Petitions Seeking Withdrawal of Insolvency Process Against Byju's Parent

Indu Bhan

New Delhi: The Supreme Court on Monday dismissed an appeal by the Board of Control for Cricket in India (BCCI), seeking withdrawal of the corporate insolvency resolution process (CIRP) it initiated against Think & Learn, the parent of Byju's.

The top court also dismissed another appeal of Byju's cofounder Riju Raveendran, seeking withdrawal of the insolvency proceedings without presenting it before the committee of creditors (CoC) of the debt-laden online education services provider.

The court has thus refused to interfere with the rulings of the National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) and the Bengaluru bench of the National Company Law Tribunal (NCLT) that had directed the resolution professional to present BCCI's withdrawal application before the CoC.

"We are examining the implications of today's order and will decide the future course of action after due consideration," the counsel of Byju's founders Byju Raveendran and Divya Gokulnath said in a statement.

## Bench Soon to Hear Review Petitions by JSW Steel, BPSL Lenders: CJ Gavai

Indu Bhan

New Delhi: Chief Justice of India, BR Gavai, Monday said he would soon constitute a bench to hear review petitions filed by JSW Steel and lenders of Bhushan Power and Steel (BPSL) against the Supreme Court's May 2 judgment that ordered liquidation of the bankrupt firm. Senior counsel Vikas Singh, appearing for the original promoters of Bhushan Power, said the apex court had on May 26 directed status quo on the liquidation proceedings against BPSL until JSW filed its review petition in the case.

Since the review petitions have been filed, Singh asked the bench led by the CJ to appoint an administrator till these review petitions were decided. Even Solicitor General Tushar Mehta, on behalf of the Committee of Creditors (CoC) of BSPL, also sought an open court hearing.

Justice Gavai said it will list for hearing the application of the promoter along with the review petitions after the bench was constituted. JSW Steel and BPSL lenders had approached the SC seeking review of its May 2 judgment.

## Syngenta Crop may Rethink Investing in India, says Top Executive Hawkins

Jayashree Bhosale

Pune: Syngenta Crop Protection, the \$13.2-billion pesticide and seeds arm of agricultural giant Syngenta, may reconsider investing in India due to policy uncertainties, a top company official said, citing the recent pause on sale of biostimulants, which enhances nutrient uptake by plants.

"This kind of disruption strategically makes companies wonder whether we should invest in India, (and) should we build our portfolio when we have this inconsistency from the regulatory system," said Steven Hawkins, global president of Syngenta Crop Protection.

Agriculture minister Shivraj Singh Chouhan had on June 17 said biostimulants—which have a market size of about \$400 million in the country—will not be allowed to be sold without scientific approval after the provisional registration period of biostimulants expired on June 16.

They were allowed to be sold for the past two years. Chouhan said he had received complaints from farmers that biostimulants were fake or not effective.

**MSME TECHNOLOGY CENTRE**  
MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES, GOVT. OF INDIA

**2 Days Government Certification on YOUTUBE BUSINESS TRAINING**  
How to Start YouTube Business

Course Duration (ONLINE) 2 Days Date: 26 & 27 July 2025  
Time: 5:00 PM to 8:00 PM

Content: Course Content: Professional YouTube channel Setup, YouTube videos, Reels & Shorts, Video Shop, Equipments Handling, Video Editing, Voice Dubbing, Title Animation, Content Creation, Audience Targeting, YouTube monetization, Subscribers Increasing tips, YouTube business Type, Analytics, Page Branding, Earning Money, Attracting Viewers, Investment Cost, Video creation platform, How to create a video, Thumbnail designing, youtube script Writing, How to Promote your Business/Yourself in youtube using AI & Chatgpt more topics

Fees: Rs. 3,000/- (Study material in soft copy shall be provided)

Coordinator: 9818676612, 9818528498, 9686564246  
Government of India certificate will be awarded

**GOVERNMENT OF PUNJAB**  
**PUNJAB DEVELOPMENT COMMISSION**  
VIT-TE YOJAN BHAWAN, PLOT NO. 2-B,  
SECTOR 33-A CHANDIGARH  
Website :- <https://pdpc.punjab.gov.in>

**Corrigendum**  
In partial modification of the PDC recruitment guidelines issued vide letter No. 1/28-PDC-2023/1981 in March 2024, the following amendments in the educational eligibility criteria for appointment/recruitment of technical staff in PDC have been approved by the competent authority.

**Amendment to Minimum Eligibility Criteria:**  
Master's Degree or Post Graduate Diploma/Executive PGP (minimum 1 year) in any discipline ;

OR  
Graduate Degree (Bachelors) with minimum 4 years of study after 10+2 in any discipline.

Note : Professional degrees/ Courses with minimum 5 years of study post 10+2 such as MBBS or LLB or CA/ CS (formally registered with their respective professional bodies) or BA=LLB etc. will be considered as equivalent to "Master" degree for the purposes of eligibility & making.

This corrigendum comes into immediate effect and supersedes all previous reference to the minimum educational eligibility criteria for appointment/recruitment of Technical Staff in PDC.

**Extension of Deadline:**

In Light of the revised eligibility criteria, the deadlines for filling and submitting the online application under RECRUITMENT NOTICE 1/2025-26 for engagement of professionals at PDC, is hereby extended to 10 August, 2025 (up to 11.59 PM).

Eligible and interested candidates are requested to visit the website for more detail.

The Link for online applications is <https://bit.ly/pdpcjune2025>  
DPR/Pb./1080/11/2025-26/1394 Section Officer, PDC

**HAVELLS**  
SMART HOME APPLIANCES  
Zindagi Ki Sharing

**HEXG+ MIXER GRINDER**

**HAVELLS**  
Sahi pani ka sign,  
Havells Alkaline.

**GRACIA ALKALINE WATER PURIFIER**

10 stage purification, Stainless steel tank, 8° pH, Hot, warm & ambient water dispensing

**LLOYD**  
ALL STAINS. ONE SOLUTION.  
Novate IoT WASHING MACHINE



### UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025

(Rs. in Crores)

S.N.	Particulars	STANDALONE			CONSOLIDATED		
		Quarter ended	Year ended	Quarter ended	Quarter ended	Year ended	Quarter ended
		30-Jun-25	31-Mar-25	30-Jun-24	30-Jun-25	31-Mar-25	30-Jun-24
		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)
1	Total Income	5506.87	22048.28	5875.14	5524.53	22081.33	5883.54
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax and exceptional items)	474.56	2009.09	552.67	469.75	1990.49	549.00
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items)	474.56	2009.09	552.67	469.75	1990.49	549.00
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional items)	352.34	1488.84	411.18	347.53	1470.24	407.51
5	Total Comprehensive Income for the period [(comprising Profit/(Loss) for the period and Other Comprehensive Income (after tax)]	351.21	1466.48	409.85	345.51	1449.13	406.10
6	Paid up equity share capital (Face value of Re.1/- each)	62.72	62.69	62.69	62.72	62.69	62.69
7	Other equity	8268.30 (As on 31st Mar'25)	8268.30 (As on 31st Mar'25)	7375.78 (As on 31st Mar'24)	8261.10 (As on 31st Mar'25)	8261.10 (As on 31st Mar'25)	7384.09 (As on 31st Mar'24)
8	Earnings per equity share (EPS) (nominal value of Re. 1/-each) (not annualised for quarter):						
	a) Basic (Rs.)	5.62	23.75	6.56	5.55	23.49	6.49
	b) Diluted (Rs.)	5.62	23.74	6.56	5.54	23.48	6.48

**Note:-**  
1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual financial results filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual financial results are available on company website [www.havells.com](http://www.havells.com) and on the websites of the stock exchanges [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).

**HAVELLS INDIA LIMITED**  
Regd. Off. : 904, 9th Floor, Surya Kiran Building, K G Marg, Connaught Place, New Delhi - 110 001  
Corporate Off. : QRG Towers, 2D, Sector - 126, Expressway, Noida (U.P.) - 201 304  
Tel. # 0120-3331000, Fax # 0120-3332000, Web: [www.havells.com](http://www.havells.com)  
Email: [investors@havells.com](mailto:investors@havells.com), CIN - L31900DL1983PLC016304

For and on behalf of the Board  
Havells India Limited  
(Anil Rai Gupta)  
Chairman and Managing Director  
Noida, July 21, 2025



**SBI**  
Digital Banking and Transformation-Consumer, Corporate Centre, MIDC Turbhe, Navi Mumbai - 400705. E-mail: [fin.tech.yono@sbi.co.in](mailto:fin.tech.yono@sbi.co.in)  
Website: <https://bank.sbi/>, <https://etender.sbi/>

**NOTICE INVITING RFE (REQUEST FOR EMPANELMENT)**  
RFE No: SBI/CC/DB&T-Consumer/TI&SP/RFE/2025-26/07  
Applications are invited by State Bank of India from eligible Startups, FinTech's & Digital Capability Partners (DCP), for empanelment in specific requirements for AI ML driven document vetting tool (Event ID-34991).  
RFE document is available on <https://etender.sbi/>  
Place: Navi Mumbai Deputy General Manager (T, I, & Spl. Projects)  
Date: 21.07.2025 Digital Banking and Transformation-Consumer

**पावरग्रिड POWERGRID**

**Special Window for Re-Judgement of Transfer Requests of Physical Shares**  
Notice is hereby given that pursuant to the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") circular SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/PIR/2025/97 dated 02<sup>nd</sup> July, 2025 ("SEBI Circular"), a Special window has been opened for a period of 6 (six) months from 07<sup>th</sup> July, 2025 till 06<sup>th</sup> January, 2026 ("said period") for the shareholders for re-lodgement of transfer deeds, which were lodged prior to the deadline of April 01, 2019 and rejected/returned/not attended to due to deficiency in the documents/processor otherwise. The eligible shareholders may submit their request to the Company at [investors@powergrid.in](mailto:investors@powergrid.in) or Registrar and Share Transfer Agent (KFin Technologies Limited) at [enward.ris@kfinetech.com](mailto:enward.ris@kfinetech.com). During the said period, the shares that are re-logged for transfer shall be issued only in dematerialized (demat) mode. Due process shall be followed for such transfer-cum-demat requests.  
The SEBI Circular can be accessed at [https://www.sebi.gov.in/legal/circulars/jul-2025/ease-of-doing-investment-special-window-for-re-lodgement-of-transfer-requests-of-physical-shares\\_94973.html](https://www.sebi.gov.in/legal/circulars/jul-2025/ease-of-doing-investment-special-window-for-re-lodgement-of-transfer-requests-of-physical-shares_94973.html) and is also available on the website of the Company ([www.powergrid.in](http://www.powergrid.in)).  
Sd/-  
Place: Gurugram Satsyaprakash Dash  
Date: 21.07.2025 Company Secretary and Compliance Officer

**POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED**  
(A Government of India Enterprise)  
Regd. Office: B-9, Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi-110016  
Corporate Office: "Saudamini", Plot No.2, Sector 29, Gurugram - 122001 (Haryana)  
Website: [www.powergrid.in](http://www.powergrid.in) CIN: L40101DL1989GOI038121  
A Maharatna PSU



कांवाड़ यात्रियों के आगमन के मद्देनजर

# जीटी रोड का एक हिस्सा कल सुबह आठ बजे तक रहेगा बंद

जनसत्ता संवाददाता  
नई दिल्ली, 21 जुलाई।

राष्ट्रीय राजधानी में कांवाड़ यात्रियों के आगमन के मद्देनजर जीटी रोड का एक प्रमुख हिस्सा 23 जुलाई सुबह आठ बजे तक बंद रहेगा। दिल्ली यातायात पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि केशव चौक गोलचक्कर से युधिष्ठिर सेतु (आइएसबीटी) तक सड़क का बायां मार्ग 21 जुलाई सुबह आठ बजे से 23 जुलाई सुबह आठ बजे तक वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रहेगा।

आइएसबीटी की ओर जाने वाले स्वामी दयानंद मार्ग का उपयोग करने वाले यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मौजपुर जाने के लिए केशव चौक अंडरपास लें या फिर श्याम चौक पर 'यू-टर्न' लेकर स्वामी दयानंद मार्ग, विकास मार्ग या मास्टर प्लान रोड होते हुए आइएसबीटी पहुंचें। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि सोमवार तिराहे से आने वाले वाहनों को रोड नंबर 66 के जरिए वजीराबाद रोड की ओर भेजा जा रहा है। इसी तरह, धर्मपुर तिराहे से आने वाले वाहन या तो रोड



नई दिल्ली में कांवाड़ लेकर आते श्रद्धालु।

नंबर 66 से होते हुए वजीराबाद रोड तक जा सकते हैं या केशव चौक अंडरपास का उपयोग कर विकास मार्ग की ओर बढ़ सकते हैं। पुराने लोहे के पुल से जीटी रोड की ओर जाने वाले लोगों को अब कैलाश नगर और गांधी नगर होते हुए पुस्ता रोड गलियारे पर मोड़ा जा रहा है। वहीं, शास्त्री पार्क पुस्ता रोड से आने वाले वाहन शास्त्री पार्क में जीटी रोड पर जा सकते हैं और रोड नंबर 66 या फिर केशव चौक अंडरपास से होकर विकास मार्ग की ओर बढ़ सकते हैं।

## जलाभिषेक के लिए मंदिरों में लगा कांवाड़ियों का तांता

नई दिल्ली, 21 जुलाई (संवाददाता)। सावन के दूसरे सोमवार पर कांवाड़ियों के पहले जलाभिषेक के साथ ही दिल्ली के सभी छोटे-बड़े शिवालय 'बोल बम' की ध्वनि से गूंज उठे। झंडेवाला देवी मंदिर में सोमवार के दिन भगवान शंकर का रुद्राभिषेक किया गया और ऊपर व प्राचीन गुफा वाले शिवालय में भक्तों द्वारा श्रद्धा के साथ जलाभिषेक किया गया। छतरपुर मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किशोर चावला ने बताया कि नागेश्वर मंदिर व मुख्य शिवालय पर जलाभिषेक के लिए सुबह से ही हजारों भक्त पवित्रियों में खड़े थे। कनाट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर के महंत सुरेश शर्मा ने बताया कि सोमवार सुबह से ही कांवाड़ियों ने जलाभिषेक किया।

## दिल्ली को बनाएं 'ग्लोबल इवेंट का हब' : कपिल मिश्रा

नई दिल्ली, 21 जुलाई (संवाददाता)।

दिल्ली सचिवालय में सोमवार को पर्यटन, कला, संस्कृति व भाषा मंत्री कपिल मिश्रा ने विभागीय अधिकारियों व 'इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों' के दिग्गजों के साथ एक उच्चस्तरीय गोल मेज बैठक की।

बैठक का उद्देश्य दिल्ली के लिए 'पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप' (पीपीपी) मॉडल के आधार पर एक सांस्कृतिक और संभावनाओं से भरा हुआ नीतिगत ढांचा तैयार करना था। संस्कृति मंत्री ने कहा कि हमारा उद्देश्य दिल्ली को 'पॉलिटेक्नल कैपिटल' के साथ ही 'ग्लोबल इवेंट हब' बनाना है।

## हाई कोर्ट में छह न्यायाधीशों ने ली शपथ

जनसत्ता संवाददाता  
नई दिल्ली, 21 जुलाई।

दिल्ली उच्च न्यायालय में सोमवार को छह नए न्यायाधीशों ने पद की शपथ ली जिससे अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय ने उच्च न्यायालय परिसर में आयोजित एक समारोह में इन छह नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई।

शपथ लेने वाले छह न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव, न्यायमूर्ति नितिन वासुदेव साम्बे, न्यायमूर्ति विवेक चौधरी, न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मोंगा और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला शामिल हैं। इन न्यायाधीशों के शपथ

ग्रहण के साथ ही उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 40 हो गई है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत पदों की संख्या 60 है।

न्यायमूर्ति चौधरी ने हिंदी में शपथ ली, जबकि अन्य पांच न्यायाधीशों ने अंग्रेजी में शपथ ली। न्यायमूर्ति साम्बे इससे पहले बंबई उच्च न्यायालय में कार्यरत थे, जबकि न्यायमूर्ति चौधरी एवं शुक्ला इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कार्यरत थे। न्यायमूर्ति क्षेत्रपाल पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में और न्यायमूर्ति मोंगा राजस्थान उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त रहे थे। न्यायमूर्ति राव का तबादला कर्नाटक उच्च न्यायालय से दिल्ली किया गया है। इस फेरबदल के परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय के तीन सदस्यीय कालेजियम का पुनर्गठन भी होगा।

## संपत्ति कर भुगतान की तिथि बढ़ी

नई दिल्ली, 21 जुलाई (संवाददाता)।

दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह ने सोमवार को कहा कि आगामी 31 जुलाई तक संपत्ति कर का भुगतान करने पर करदाता दस फीसद की छूट का लाभ उठा सकते हैं। कर जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई 2025 कर दी गई है। महापौर ने कहा कि दिल्ली के करदाताओं की सुविधा के लिए सभी 12 जोन में 2333 संपत्ति कर शिविरों का आयोजन किया गया है। साथ ही करदाता आनलाइन भुगतान भी कर सकते हैं।

**Bank of India**  
बैंक ऑफ इंडिया  
ब्रांच: 21 जुलाई, 2025

**सर्वजनिक सूचना**  
हमें अपनी गुडगांव मुख्य शाखा, पता: ओल्ड रेलवे रोड, सुपर बेकरी के पास, गुडगांव-122001, को 28.07.2025 से एक अधिक सुविधाजनक और विशाल स्थान पर स्थानांतरित करने की घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है। नया पता: 221, 1/13, सुभाष नगर, ओल्ड रेलवे रोड, शिव मूर्ति के पास, गुडगांव-122001 फोन: 0124-2320708/2314617/2321922, ईमेल: Gurgaon.delhinc@bankofindia.co.in

दिनांक: 22.07.2025, स्थान: गुडगांव आंचलिक प्रबंधक, दिल्ली एनसीआर

**HARERA GURUGRAM**

**सार्वजनिक सूचना**  
रियल एस्टेट परियोजना  
"अनंत राज एस्टेट" के आवंटियों के ध्यानार्थ  
गुरुग्राम के सेक्टर 63ए में स्थित,  
मेसर्स अनंत राज लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है

- यह मेसर्स अनंत राज लिमिटेड द्वारा सेक्टर-63ए, गुरुग्राम में विकसित की जा रही परियोजना "अनंत राज एस्टेट" के आवंटियों की जानकारी के लिए है। यह परियोजना अंतरिम रेरा, पंचकूला में पंजीकरण संख्या 142/2017 दिनांक 28.08.2017 के तहत पंजीकृत है और पंजीकरण 27.08.2022 + 6 माह कोविड-19 = 27.02.2023 तक वैध है। इसके अतिरिक्त रेरा, गुरुग्राम द्वारा प्रमोटर को 2016 के अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत परियोजना के पंजीकरण का विस्तार 2023 की संख्या 19 दिनांक 10.07.2023 के तहत 27.02.2024 तक प्रदान किया गया है।
- प्रमोटर ने प्राधिकरण को एक आवेदन किया है, जिसमें अनुरोध किया गया है कि पंजीकरण की समाप्ति पर उसे रद्द करने के स्थान पर, प्राधिकरण उसे ऐसे अतिरिक्त नियमों और शर्तों के अधीन लागू रहने की अनुमति दे सकता है, जिन्हें वह आवंटियों के हित में लागू करना उचित समझे, और इस प्रकार लगाए गए ऐसे कोई भी नियम और शर्तें प्रमोटर पर बाध्यकारी होंगी।
- प्रमोटर ने परियोजना का संशोधित लेआउट प्लान प्रस्तुत किया है, जो आवासीय प्लॉटिड कॉलोनी के विकास के लिए अतिरिक्त लाइसेंस प्रदान किए जाने के कारण संशोधित है और प्राधिकरण के पास पंजीकृत कॉलोनी के मौजूदा क्षेत्र में संशोधन है।
- रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 14(2)(ii) के प्रावधानों के अनुसार, परियोजना की स्वीकृत योजना में किसी भी प्रकार के परिवर्तन या परिवर्धन के लिए कम से कम दो तिहाई आवंटियों की लिखित सहमति आवश्यक है। प्रमोटर ने लेआउट योजना में संशोधन के लिए आवंटियों की लिखित सहमति प्रस्तुत की है, जो कुल आवंटियों की संख्या के दो तिहाई से अधिक है।
- आवेदन की संबंधित योजनाएँ, स्वीकृतियाँ, सहमति और दस्तावेज़ हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण, गुरुग्राम के कार्यालय में उपलब्ध हैं, जिन्हें कोई भी आवंटि किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान, अर्थात् प्रातः 10:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक, 01.08.2025 तक देख सकता है और यदि कोई आपत्ति हो, तो 01.08.2025 तक दर्ज करा सकता है। इसके अतिरिक्त, संबंधित व्यक्ति परियोजना की सुनवाई के दौरान 04.08.2025 को प्रातः 11:00 बजे प्राधिकरण में व्यक्तिगत रूप से भी उपस्थित हो सकते हैं।

प्राधिकरण के अनुमोदन एवं उसकी मुहर के अधीन दिया गया।

सचिव  
हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण  
गुरुग्राम की ओर से  
दिनांक: 21.07.2025

**HAVELLS**

**UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025**

(Rs. in Crores)

S.N.	Particulars	STANDALONE			CONSOLIDATED		
		Quarter ended	Year ended	Quarter ended	Quarter ended	Year ended	Quarter ended
		30-Jun-25	31-Mar-25	30-Jun-24	30-Jun-25	31-Mar-25	30-Jun-24
1	Total Income	5506.87	22048.28	5875.14	5524.53	22081.33	5883.54
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax and exceptional items)	474.56	2009.09	552.67	469.75	1990.49	549.00
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items)	474.56	2009.09	552.67	469.75	1990.49	549.00
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional items)	352.34	1488.84	411.18	347.53	1470.24	407.51
5	Total Comprehensive Income for the period [(comprising Profit/(Loss) for the period and Other Comprehensive Income (after tax)]	351.21	1466.48	409.85	345.51	1449.13	406.10
6	Paid up equity share capital (Face value of Re.1/- each)	62.72	62.69	62.69	62.72	62.69	62.69
7	Other equity	8268.30 (As on 31st Mar'25)	8268.30 (As on 31st Mar'25)	7375.78 (As on 31st Mar'24)	8261.10 (As on 31st Mar'25)	8261.10 (As on 31st Mar'25)	7384.09 (As on 31st Mar'24)
8	Earnings per equity share (EPS) (nominal value of Re. 1/-each) (not annualised for quarter):						
	a) Basic (Rs.)	5.62	23.75	6.56	5.55	23.49	6.49
	b) Diluted (Rs.)	5.62	23.74	6.56	5.54	23.48	6.48

**Note:-**  
1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual financial results filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual financial results are available on company website [www.havells.com](http://www.havells.com) and on the websites of the stock exchanges [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

**HAVELLS INDIA LIMITED**  
Regd. Off. : 904, 9th Floor, Surya Kiran Building, K G Marg, Connaught Place, New Delhi - 110 001  
Corporate Off. : ORG Towers, 2D, Sector - 126, Expressway, Noida (U.P.) - 201 304  
Tel. # 0120-3331000, Fax # 0120-3332000, Web: [www.havells.com](http://www.havells.com)  
Email: [investors@havells.com](mailto:investors@havells.com), CIN - L31900DL1983PLC016304

For and on behalf of the Board  
Havells India Limited

(Anil Rai Gupta)  
Chairman and Managing Director  
Noida, July 21, 2025

**HAVELLS**

**UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025**

(Rs. in Crores)

S.N.	Particulars	STANDALONE			CONSOLIDATED		
		Quarter ended	Year ended	Quarter ended	Quarter ended	Year ended	Quarter ended
		30-Jun-25	31-Mar-25	30-Jun-24	30-Jun-25	31-Mar-25	30-Jun-24
1	Total Income	5506.87	22048.28	5875.14	5524.53	22081.33	5883.54
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax and exceptional items)	474.56	2009.09	552.67	469.75	1990.49	549.00
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items)	474.56	2009.09	552.67	469.75	1990.49	549.00
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional items)	352.34	1488.84	411.18	347.53	1470.24	407.51
5	Total Comprehensive Income for the period [(comprising Profit/(Loss) for the period and Other Comprehensive Income (after tax)]	351.21	1466.48	409.85	345.51	1449.13	406.10
6	Paid up equity share capital (Face value of Re.1/- each)	62.72	62.69	62.69	62.72	62.69	62.69
7	Other equity	8268.30 (As on 31st Mar'25)	8268.30 (As on 31st Mar'25)	7375.78 (As on 31st Mar'24)	8261.10 (As on 31st Mar'25)	8261.10 (As on 31st Mar'25)	7384.09 (As on 31st Mar'24)
8	Earnings per equity share (EPS) (nominal value of Re. 1/-each) (not annualised for quarter):						
	a) Basic (Rs.)	5.62	23.75	6.56	5.55	23.49	6.49
	b) Diluted (Rs.)	5.62	23.74	6.56	5.54	23.48	6.48

**Note:-**  
1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual financial results filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual financial results are available on company website [www.havells.com](http://www.havells.com) and on the websites of the stock exchanges [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

**HAVELLS INDIA LIMITED**  
Regd. Off. : 904, 9th Floor, Surya Kiran Building, K G Marg, Connaught Place, New Delhi - 110 001  
Corporate Off. : ORG Towers, 2D, Sector - 126, Expressway, Noida (U.P.) - 201 304  
Tel. # 0120-3331000, Fax # 0120-3332000, Web: [www.havells.com](http://www.havells.com)  
Email: [investors@havells.com](mailto:investors@havells.com), CIN - L31900DL1983PLC016304

For and on behalf of the Board  
Havells India Limited

(Anil Rai Gupta)  
Chairman and Managing Director  
Noida, July 21, 2025

## दिल्ली में इसी महीने खुलेंगे 30 से अधिक आरोग्य मंदिर

जनसत्ता संवाददाता  
नई दिल्ली, 21 जुलाई।

सचिवालय में सोमवार को स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने बताया कि दिल्ली में इसी महीने 30 से अधिक नए 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर' खोले जाएंगे। इसके साथ ही अगस्त माह तक 75 और

नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू कर दिए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली में कुल 950 से अधिक स्थानों को चिन्हित कर वहां 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर' स्थापित करने के लिए संभाव्यता की जांच की जा रही है। 'स्वस्थ दिल्ली, सशक्त दिल्ली' के संकल्प को पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार युद्ध स्तर पर स्वास्थ्य ढांचे को विश्व स्तरीय बनाने जुटी है। इस दौरान दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में निर्माणाधीन कार्यों की

धीमी रफतार पर स्वास्थ्य मंत्री ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग से जुड़े काम में कोताही किसी भी स्तर में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही पीडब्ल्यूडी, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण व नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अधिकारी भी मौजूद रहे।

**यूको बैंक** UCO BANK  
(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)  
प्रधान कार्यालय: 10, बी. टी. एम. सर्णी, कोलकाता - 700001  
Honours Your Trust

सम्मान आपके विश्वास का

नये युग का बैंकिंग अनुभव

हमारी समग्र डिजिटल यात्रा (एसटीपी) के साथ वेबसाइट या यूको एम-बैंकिंग के द्वारा आवेदन करें

- यूको वाहन ऋण
- यूको पेंशन ऋण
- यूको डिजी एजुकेशन ऋण
- यूको पूर्वानुभूतित परसलन ऋण
- यूको सेलेक्ट प्लस ऋण
- यूको एमएसएमई ऋण
- यूको जीएसटी स्मार्ट फाइनेंस

30 जून 2025 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम (₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	30.06.2025 को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित)	30.06.2024 को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित)	31.03.2025 को समाप्त वर्ष (अलेखापरीक्षित)
1.	पारिचालन से कुल आय (निवल)	743321.00	685942.00	2947353.00
2.	अवधि का निवल लाभ/(हानि) (कर, अपवाद और/या असाधारण मदों से पूर्व)	94620.00	86247.00	383355.00
3.	कर पूर्व अवधि का निवल लाभ/(हानि) (अपवाद और/या असाधारण मदों के उपरान्त)	94620.00	86247.00	383355.00
4.	कर परदात अवधि का निवल लाभ/(हानि) (अपवाद और/या असाधारण मदों के उपरान्त)	60744.00	55096.00	244496.00
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर उपरान्त) और अन्य व्यापक आय (कर उपरान्त) शामिल है)			कृपया संदर्भ नोट नं. 2 देखें
6.	प्रदात इक्विटी शेयर पूंजी	1253956.00	1195596.00	1253956.00
7.	आरक्षित (संशोधन आरक्षित रहित)	1541844.00	1240327.00	1541844.00
8.	प्रतिभूति श्रेणियम खाता	504211.00	362571.00	504211.00
9.	निवल मूल्य	2222207.00	1638417.00	2110741.00
10.	सुकता ऋण/पूंजी/बकाया ऋण	0.08	0.07	0.07
11.	ऋण इक्विटी अनुपात	0.83	1.07	0.93
12.	प्रति शेयर अर्जन (₹. 10/- प्रत्येक) (नियमित और अनियमित परिचालनों के लिए)			
1	मूलभूत :	0.48	0.46	2.04
2	तनुकृत :	0.48	0.46	2.04
13.	पूंजी प्रतिदान आरक्षित निधि			लागू नहीं
14.	डिविडेंड प्रतिदान आरक्षित निधि			लागू नहीं

नोट: 1. उपरोक्त विवरण विनियम के नियम 33 एवं 52 के अधीन स्टॉक एक्सचेंजों में दर्ज किए गए तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (सीएसई) [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) और एनएसई [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com), बैंक की वेबसाइट ([www.ucobank.com/investors](http://www.ucobank.com/investors)) पर उपलब्ध है। कुल व्यापक आय और अन्य व्यापक आय से संबंधित सूचना को स्पष्टिहीन नहीं किया गया है, क्योंकि इन्हें एएस अभी तक बैंक पर लागू नहीं है।

यूको बैंक के लिए

स्थान: कोलकाता  
दिनांक: 21 जुलाई, 2025

हस्ता/—  
संजय कुमार मिश्रा  
कार्यपालक निदेशक

हस्ता/—  
संजय कुमार मिश्रा  
कार्यपालक निदेशक

हस्ता/—  
अरमन कृष्ण कुमार  
अध्यक्ष

हस्ता/—  
अरमन कृष्ण कुमार  
अध्यक्ष

सहकार्यकर्ता  
7666399400 8334001234  
सीकेवाईसी कार्ड के लिए मिस्ट कॉल करें: 7799022129 [www.ucobank.com](http://www.ucobank.com)

**HAVELLS**

**UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025**

(Rs. in Crores)

S.N.	Particulars	STANDALONE			CONSOLIDATED		
		Quarter ended	Year ended	Quarter ended	Quarter ended	Year ended	Quarter ended
		30-Jun-25	31-Mar-25	30-Jun-24	30-Jun-25	31-Mar-25	30-Jun-24
1	Total Income	5506.87	22048.28	5875.14	5524.53	22081.33	5883.54
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax and exceptional items)	474.56	2009.09	552.67	469.75	1990.49	549.00
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items)	474.56	2009.09	552.67	469.75	1990.49	549.00
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional items)	352.34	1488.84	411.18	347.53	1470.24	407.51
5	Total Comprehensive Income for the period [(comprising Profit/(Loss) for the period and Other Comprehensive Income (after tax)]	351.21	1466.48	409.85	345.51	1449.13	406.10
6	Paid up equity share capital (Face value of Re.1/- each)	62.72	62.69	62.69	62.72	62.69	62.69
7	Other equity	8268.30 (As on 31st Mar'25)	8268.30 (As on 31st Mar'25)	7375.78 (As on 31st Mar'24)	8261.10 (As on 31st Mar'25)	8261.10 (As on 31st Mar'25)	7384.09 (As on 31st Mar'24)
8	Earnings per equity share (EPS) (nominal value of Re. 1/-each) (not annualised for quarter):						
	a) Basic (Rs.)	5.62	23.75	6.56	5.55	23.49	6.49
	b) Diluted (Rs.)	5.62	23.74	6.56	5.54	23.48	6.48

**Note:-**  
1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual financial results filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual financial results are available on company website [www.havells.com](http://www.havells.com) and on the websites of the stock exchanges [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).